



July 22, 2022

To,
BSE Limited
(BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: INDIAMART)

Subject: Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisements published in the following newspapers on July 22, 2022 with respect to Audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2022:

- Mint (English Language National Daily Newspaper – All India); and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at <https://investor.indiamart.com/>

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,
For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava)
Group General Counsel,
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F5164

Encl: As above



Draghi quits, spelling crisis for Italy, Europe

The resignation came even as Italy dealt with covid, Ukraine war-led chaos

AP
feedback@livemint.com
ROME

Italian Premier Mario Draghi resigned Thursday after his ruling coalition fell apart, dealing a destabilizing blow to the country and Europe at a time of severe economic uncertainty brought on by the coronavirus pandemic and Russia's war in Ukraine.

Draghi tendered his resignation to President Sergio Mattarella during a morning meeting at the Quirinale Palace. Mattarella, who rejected a similar resignation offer from the premier last week, "took note" of the new one and asked Draghi's government to remain on in a caretaker capacity, the president's office said. While the president could see if a new parliamentary majority was possible, his office indicated that he would dissolve the legislature and call early elections.

The turmoil couldn't have come at a worse time for the eurozone's third-largest economy. Like many countries, Italy is facing soaring prices for everything from food to household utilities as a result of Moscow's invasion. On top of that, it is also suffering through a prolonged drought that is threatening crops and struggling to implement its EU-financed pandemic recovery program.

Any instability in Italy could ripple out to the rest of Europe, also facing economic trouble, and deprive the EU of a respected statesman as it seeks to keep up a united front against Russia.

Draghi, who is not a politician but a former central banker, was brought in 17 months ago to navigate the economic downturn caused by covid-19. But his government of national unity imploded Wednesday after members of his uneasy coalition of right, left and populists rebuffed his appeal to band back together to finish the Italian Parliament's natural term.

Instead, the center-right Forza Italia and League parties and the populist 5-Star



Mario Draghi's government of national unity imploded on Wednesday. REUTERS

Movement boycotted a confidence vote in the Senate, a clear sign they were done with Draghi.

"Thank you for all the work done together in this period," Draghi told the lower Chamber of Deputies on Thursday morning before going to see Mattarella. Clearly moved by the applause he received there, he repeated a quip that even central bank chiefs have hearts.

Dubbed "Super Mario" for helping to lead the eurozone out of its debt crisis when he was head of the European Central Bank, Draghi played a similar calming role in Italy in recent months.

His very presence helped reassure financial markets about the debt-laden nation's public finances, and he managed to keep the country on track with economic reforms that the EU made a condition of its 200 billion-euro (-dollar) pandemic recovery package.

He was a staunch supporter of Ukraine and became a leading voice in Europe's response to Russia's invasion — one of the issues that contributed to his downfall since the 5-Stars ranked at Italian military

help for Ukraine.

Domestic concerns also played a role. The 5-Stars, the biggest vote-getter in the 2018 national election, chafed for months that their priorities of a basic income and minimum salary, among others, were ignored. The final straw? A decision to give Rome's mayor extraordinary powers to manage the capital's garbage crisis — powers that had been denied the party's Virginia Raggi when she was mayor.

While he could not keep his fractious coalition together, Draghi appeared to still have broad support among the Italian public, many of whom have taken to the streets or signed open letters in recent weeks to plead with him to stay on.

Nicola Nobile, associate director at Oxford Economics, warned Draghi's departure and the prospect that the country would not have a fully functioning government for months could exacerbate economic turbulence in Italy, which investors worry is carrying too much debt and which was already looking at a marked slowdown for the second half of the year.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhanagar, Kolkata-700 091
CIN : U40109WB2007SGC114473, cecorpmo@wbseidcl.com, www.wbseidcl.in

EXTENSION OF TIME
Ref. NIT No.: P-12/2022-23/PC-1 (Tender ID: 2022_WBSED_385358_1) originally published in this newspaper on 18.06.2022. Bid Submission End Date is hereby extended up to 10.08.2022 (up to 14:00 hrs.). Further details may be had from www.wbseidcl.in & <https://wbenders.gov.in> and office of the Chief Engineer (Procurement & Contracts), WBSEIDCL, Vidyut Bhavan, 4th Floor, Block-DJ, Sector-II, Bidhanagar, Kolkata-700091 (Phone No: 033-23197-561/563).

GE POWER INDIA LIMITED
CIN: L74140MH1992PLC068379
Registered Office: Regus Magnum Business Centers, 11th floor, Platina, Block G, Plot C-59, BKC, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra - 400051; Tel. No.: T + 91 22 68841741
Website: www.ge.com/in/ge-power-india-limited

INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given to the members of the Company that in compliance with MCA circular 2/2022 dated 05 May 2022 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May 2022, the 30th Annual General Meeting ("AGM") of GE Power India Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 30 August 2022 at 04:30 p.m. through video conferencing ("VC") or through other audio visual means ("OAVM") to transact the business that will be set forth in the 30th AGM notice, in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other laws/circulars.

2. In compliance with the relevant laws and circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for FY 2021-22, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached the reto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company (www.ge.com/in/ge-power-india-limited), on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

3. **Manner of registering / updating email addresses:**
(a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by clicking on <https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobileemailreg.aspx> or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at investorrelations@ge.com or to KFinTech@inward.ris@kfintech.com.
(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

4. The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

By order of the Board
For GE Power India Limited
Kamna Tiwari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida
Date: 21 July 2022

bharti
BHARTI AIRTEL LIMITED
CIN: L74899HR1995PLC095967
Regd. Office: Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase - IV, Gurugram - 122015
Corp. Office: Bharti Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi - 110070
Tel: +91 124 422222; Fax: +91 124 4248063
Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.airtel.com

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING OF BHARTI AIRTEL LIMITED AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- The 27th Annual General Meeting ("AGM") of Bharti Airtel Limited ("the Company") will be held on Friday, August 12, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of the 27th AGM ("the Notice"). The venue of AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase - IV, Gurugram-122015. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide VC / OAVM facility along with the e-voting facility for the 27th AGM.
- In accordance with the General Circular No. (s) 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2021, 02/2021 dated January 13, 2021 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, and 2/2022 dated May 5, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as MCA and SEBI circulars) the Notice and Integrated Report & Annual Financial Statements for the financial year 2021-22 ("Integrated Annual Report") have been sent in electronic mode only, to members whose email IDs are registered with the Company or Depositories / Depository Participants ("DPs"). The electronic dispatch of the Notice and Integrated Annual Report to the members has been completed on Thursday, July 21, 2022. The Notice and Integrated Annual Report is also available on the Company's website(s) at www.airtel.com, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.
- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to cast their vote electronically on all resolutions as set forth in the Notice. Members may cast their votes electronically through e-voting / remote e-voting ("e-voting"). The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice will be transacted only through voting by electronic means.
- The remote e-voting period will commence at 9:00 A.M. on Monday, August 08, 2022 and end at 5:00 P.M. on Thursday, August 11, 2022. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5:00 P.M. on Thursday, August 11, 2022. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- The cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail e-voting facility will be Friday, August 05, 2022. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members are eligible to cast vote only if they are holding shares as on the cut-off date.
- Members who have acquired shares after the sending of the Integrated Annual Report through electronic means and before the cut-off date may obtain user ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting then such member may use existing user ID and password, and cast vote.
- The members who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. either by registering through the link: <https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobileemailreg.aspx> or by writing to KFIN at inward.ris@kfintech.com along with the scanned copy of signed request letter mentioning their name and address; scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card, and self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their address.
- Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their e-mail addresses with their relevant DPs. For the limited purpose of receiving the Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2021-2022, they may also temporarily register their e-mail addresses by following the procedure specified in the Notice i.e. by registering through the link: <https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobileemailreg.aspx>.
- The Company has fixed Tuesday, August 02, 2022 as the "Record Date" for determining the entitlement of members to dividend, recommended by the Board of Directors for the financial year ended March 31, 2022. The dividend, subject to the approval of the Members at the AGM, will be paid within 30 days from the date of approval of Members at the AGM / beneficial owners whose names appear in the Register of Members / depository records as at the close of business hours on Record date.
- As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act 2020, dividend paid or distributed by the Company as or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of the said dividend.
- Procedure for joining the AGM and e-voting process, pursuant to SEBI Circulars have been provided in detail in the Notice and is also available on the website of the Company www.airtel.com, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- In case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send an email to Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Bharti Airtel Limited
Sd/-
Pankaj Tewari
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : July 21, 2022

HT MEDIA LIMITED
CIN: L22121DL2002PLC117874
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor), 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001
Tel: +91-11-6656-1234; Fax: +91-11-6656-1445
Website: www.htmedia.in; E-mail: investor@hindustantimes.com

NOTICE
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of unpaid/unclaimed dividend & Equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

In terms of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), if dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven (7) years or more, the same shall be liable to be transferred by the Company to the IEPF account. Further, in terms of Section 124(6) of the Act and IEPF Rules, the Company is also required to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) consecutive years or more, to the IEPF Account.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders, on their latest available address, whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the IEPF Rules, for taking appropriate action(s). The list of such shareholders, whose shares are liable for transfer to the IEPF, is placed on the website of the Company i.e. www.htmedia.in under "Investor relations" section.

The concerned shareholders holding shares in physical form, and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for dematerialization, followed by transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules. Upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the Company will inform the respective Depository by way of corporate action for transfer of shares to IEPF Authority. The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website viz. www.htmedia.in will be considered as, and shall be deemed to be, adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

The concerned shareholders are requested/advised to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before **October 27, 2022**, failing which the Company shall proceed to transfer the liable dividend and Equity shares to IEPF Authority without any further notice. The concerned shareholders may still claim the dividend and Equity shares from IEPF Authority by submitting an online application in E-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and following the procedure laid down under the Act and the IEPF Rules.

Kindly note that unpaid/unclaimed dividend for financial years upto 2013-2014 and shares in respect thereof, have already been transferred to IEPF, and the same can be claimed back from IEPF Authority, following the procedure laid down under the said IEPF Rules.

For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Ltd., Unit: HT Media Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana. Toll Free No.: 1800-309-4001; Email: inward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com

For HT Media Limited
Sd/-
(Manhar Kapoor)
Group General Counsel & Company Secretary

Date: 21 July, 2022
Place: New Delhi

indiamart
IndiaMART InterMESH Limited
CIN : L74899DL1999PLC101534
Regd. Office : 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subhash Marg, Delhi-110002, India
Phone : (+91) (11) 4560 8941, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com

Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the quarter ended June 30, 2022
(INR Million except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	Audited	Audited	Audited	Audited
1. Total Income	2,256	2,309	2,110	8,657
2. Income from operations	2,246	2,014	1,816	7,535
3. Net Profit for the period/year (before Tax, but after share of associate)	507	767	1,119	3,905
4. Net Profit for the period/year after tax	467	574	879	2,976
5. Total comprehensive income for the period/year [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	470	569	875	2,979
6. Equity Share Capital	304	306	303	306
7. Other equity (excluding revaluation reserves, if any)				18,435
8. Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 10 each) (In INR.)				
Basic EPS	15.29	18.78	28.99	97.82
	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)
Diluted EPS	15.20	18.67	28.61	96.84
	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)

Notes

- The above consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2022 were reviewed and recommended by the Audit Committee on July 20, 2022 and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 21, 2022. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.
- The Group acquired 100% equity ownership in Busy Infotech Private Limited ("Busy Infotech") on 06 April 2022 for the aggregate consideration of INR 5,000 Million thereby it becoming the wholly owned subsidiary of the Company. Busy Infotech is engaged in the business of development, system analysis, designing and marketing of integrated business accounting software (popularly known as Busy accounting software). The acquisition would help the Company to offer accounting software solutions to businesses in line with its long term vision of enabling businesses.
- The Group acquired 51.01% equity ownership in Finlite Technologies Private Limited ("Finlite") on 23 May 2022 and has paid INR 459.74 million in cash, out of which INR 350.00 million have been paid towards fresh issue of shares by the company and remaining amount has been paid to purchase shares from the existing shareholders. As part of the acquisition, the Group has committed to Buy-out the remaining share from the promoters of Finlite Technologies Private Limited on specified dates in a manner stipulated under the acquisition agreement. Accordingly, the fair value of remaining consideration payable to promoters of Finlite Technologies of INR 321.27 million has been recognized by the Group as deferred consideration and the acquisition was accounted as per anticipated-acquisition method. Finlite is engaged in the business of providing technology related services, web development and mobile applications along with other services, Company is the owner of Live objecting, a mobile application that allows users to access their Tally data. This investment is in line with the Company's long term objective of offering various Software as a Service ("SaaS") based solutions for businesses.
- The Board of Directors at its meeting held on April 28, 2022, approved a proposal to buy-back upto 160,000 equity shares of the Company for an aggregate amount not exceeding INR 1,000 million, being 0.52% of the total paid up equity share capital at 6.250 per equity share. A Letter of Offer was made to all eligible shareholders. The Company bought back 160,000 equity shares out of the shares that were tendered by eligible shareholders and extinguished the equity shares on June 29, 2022. Capital redemption reserve was created to the extent of share capital extinguished of INR 1.60 million. The excess cost of buy-back of INR 1,012.85 million (including 12.85 million towards transaction cost of buy-back) over par value of shares and corresponding tax on buy-back of INR 232.59 million were offset from retained earnings.
- The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2022 is given below:- (Amounts in INR "Millions")

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income	2,106	2,256	2,107	8,586
Income from operations	2,133	2,007	1,811	7,508
Net Profit before tax	524	790	1,147	4,026
Net Profit after tax	489	597	907	3,098

For and on behalf of the Board of Directors
indiamart
Sd/-
Dinesh Chandra Agarwal
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place : Noida
Date : July 21, 2022

DELHI JAL BOARD
OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M)-11
ROOM NO. 110, OLD SHIV MANDIR MARG, JAL SADAN, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-110024
Email: esetjbm11@gmail.com, Ph-011-29810956

NIT No. 30/EE (T) M-11/2022-23

S. No.	Name of work	Amount to tender (In Rs.)	Date of release of tender in e-procurement solution	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1	Providing and fixing water connections along with water meters in D-Block (Reg. no. 433) Sangam Vihar Constituency under EE(M)-49.	47,21,970/-	2022 DJB_226397_1 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
2	Providing and fixing water connections along with water meters in E-Block (Reg. no.1221) Sangam Vihar Constituency under EE(M)-49.	47,21,970/-	2022 DJB_226397_2 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
3	Providing and fixing water connections along with water meters in Sangam Vihar Colony (Reg. no. 603) Sangam Vihar Constituency under EE(M)-49.	47,21,970/-	2022 DJB_226397_3 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
4	Providing and fixing water connections along with water meters in Tughlakabad Extn. (Ward 82-S) Sangam Vihar Constituency under EE(M)-49.	47,21,970/-	2022 DJB_226397_4 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
5	Providing and fixing water connections along with water meters in F-1 block (Reg. no. 1336) Sangam Vihar Constituency under EE(M)-49.	47,21,970/-	2022 DJB_226397_5 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
6	Improvement of sewerage system by replacement of badly settled up and damaged sewer line from Qtr. no. 1827 to 1946 in Sector-3 Pushp Vihar Dr. Ambedkar Nagar under EE(M)-48.	25,21,548/-	2022 DJB_226397_6 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
7	Replacement of old damaged 300mm dia settled sewer line by pipe bursting method F-39 to D 15/1 Okhla Ph-II at Tughlakabad Constituency under EE(M)-52.	47,01,388/-	2022 DJB_226397_7 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM
8	Replacement of old damaged 300mm dia settled sewer line by pipe bursting method at C-56 DSIDC Shed scheme III to SDMC Office Okhla Ph-II at Tughlakabad Constituency under EE(M)-52.	47,22,954/-	2022 DJB_226397_8 21.07.2022	01.08.2022 upto 3.00 PM

NIT along with all the terms & conditions is available on Web Site <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.D. (WATER) STOP CORONA: "Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

(Naresh Kumar Kardam)
Executive Engineer (T) M-11

Allow us to give you the simplest investment tip yet.

Subscribe.

Business news that supports new-age leadership

Scan the QR code or visit livemint.com to subscribe

mint
FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

